



भा. कृ.अनु.प.- केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान

कासरगोड, केरल - 671124 भारत

ICAR - CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE

KASARAGOD 671 124, KERALA, INDIA



Tel.: 04994-232893/94/95 (Off.) / Fax : 04994-232570 / 04994-232322

Email: cao.cpri@gmail.com / Website: www.cpri.gov.in

F.No.40(3)/2014-Estate

Dated 30-07-2015

Notice Inviting Quotations

Sealed tenders are invited from the contractors/agencies having valid electrical /civil license, registration, PAN card etc. for the work mentioned below:

Sl. No	Item of work	Estimated cost Rs.
1	Converting and Remolding of Biotechnology lab room No.54 in to chamber of Chief Administrative Officer at CPCRI, Kasaragod	Rs.93,557/-

The last date for receipt of the Limited Tender is 21.08.2015 at 3.00 PM. The schedule for Limited Tender along with terms and conditions can be downloaded in the Institute website www.cpri.gov.in

Director



भा. कृ.अनु.प.- केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान
कासरगोड, केरल - 671124 भारत
ICAR - CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE
KASARAGOD 671 124, KERALA, INDIA



Tel.: 04994-232893/94/95 (Off.) / Fax : 04994-232570 / 04994-232322
Email: cao.cpri@gmail.com / Website: www.cpri.gov.in

**NAME OF THE WORK :- - Converting and Remolding of Bio technology Lab Room NO 54. in
To Chamber of Chief Administrative Officer at CPCRI Kasaragod.**

SCHEDULE OF WORK

SL	Description of Items	quantity	unit	Rate	Amount
	Dismantling				
1	Dismantling of existing damaged door partition including removing of wooden runners. doors etc complete and stacking the serviceable material in the store section etc complete.	2.10	M ²		
2	Removing of existing platform rack wooden shutter including, hinges etc complete and stacking of serviceable material in the store section etc complete. of area 3 Sq.m and below.	3	M ²		

3	Dismantling and removing of white glazed tiles from the existing work benches including removing of cement mortar etc and stacking of serviceable materials and disposal of unserviceable materials with in a lead of 50 metre lead etc.	5.05	M ²		
4	Dismantling and removing of G.I./PVC damaged waterline pipe with fitting including stacking the material within 50-metre lead.	4	Mtr		
5	Providing and fixing PVC ceiling laminated with Aluminum angle of 25 x 25 mm along with the perimeter of ceiling fixed to wall with the help of wooden screws rowel plug and main frame 50 x 25 mm rectangular section laid at 90 cm c/c and sub frame work 25 x 25 mm square section laid at 60 cm c/c with the help of 25 x 25 mm L angle and frame work to be supported from the existing roof slab ceiling using with G.I. wire/rod etc and ceiling panels 250 x 6 mm or nearest PVC entrusted section (mat roof or approved) to be fitted with metal screws to the frames all as per manufacture specification fixing frame for mirror optical light wherever required etc and as directed.	14.25	M ²		

6	<p>Providing and fixing of powder coated Anodised aluminum sliding or/ side hung door partially glazed with Novopan/bison pre laminated particle board fillings using Jindal medium sections for frames, doors of size 100 x 210 cm nearest size using with 44.45 x 47.62 mm on vertical section weighing not less than 1.052 Kg/m. The door top of size 47.62 x 44.45 mm weighing not less than the 0.976 Kg /m. The door center of size 44.45 x 95.25 mm weighing not less than 1.301 Kg /m including 2 or 5 leaver mortise locks using stainless steel butt hinges or sliding or pivoted mechanism and 1 No. 150 x 10 mm tower bolts etc and fixing 230mm wide sintex/poly pan for partition 7 mm thick one side laminated and in lieu of panels using 5 mm thick frosted glass (Modiguard/Saint Gobain)instead of Novopan/bison pre laminated particle board where ever required including fixing of handles etc complete.</p>	2.10	M ²		
7	<p>Providing and fixing hydraulic door closer (Godraj or equivalent) with all accessories.</p>	2	each		

8	Providing and fixing powder coated two track aluminum channels with shutter of medium gauge Jindal section with navopan excluded section with all necessary fittings, handles nobe with sliding mechanism etc complete.	3.80	M ²		
9	Providing and laying Ceramic glazed floor tiles above platform of size 300x300 mm (thickness to be specified by the manufacturer), of 1st quality conforming to IS : 15622, of approved make, in all colours, shades, laid on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 Cement : 4 Coarse sand), including pointing the joints with white cement and matching pigments etc., complete	5.05	M ²		
10	Cleaning the ceramic tile flooring with mild acid With wax polishing	39	M ²		
11	Finishing wall painting with Premium acrylic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade one or more coats .	51	M ²		
12	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade one or more coats including scraping cleaning etc complete	7	M ²		

13	Distempering with 1st quality acrylic washable distemper (ready made) of approved manufacturer and of required shade and colour complete. as per manufacturer's specification. 14.63.1 One or more coats on old work	52	M ²		
14	Providing and fixing of door/window curtain including necessary fixing arrangement aluminum draper rods clips etc including stitching charges etc complete Average cost curtain cloth is app RS140/Meter	14.50	M ²		
15	Providing and fixing of C.P brass bib cock of approved quality (conforming to IS8931) 15 mm nominal bore	2	No.		
16	Providing and fixing PVC pipe with complete fittings and clamp including cutting and making good the wall and making connection from distributions including testing etc complete.. ¾"20 mm Ø pipe	2	Mtr		
17	charges for Servicing and re fixing of Aluminum door including fixing of door stopper, handles etc complete	2	NO		

18	Providing and fixing decorative veneer 3mm or nearest size (Approved) for fixing on the existing partition , door frames and sides .etc using nails screws etc complete.	34.5	M ²		
19	Varnishing with varnish of approved brand and manufacture Two or more coats of glue sizing with copal varnish over an under coat of flatting varnish	34.50	M ²		
SUB TOTAL					

I AGREE TO UNDERTAKE THE WORK AS PER THE RATES QUOTED ABOVE AND AS PER THE TERMS AND CONDITIONS ENCLOSED ALONG WITH THIS TENDER SCHEDULE

Place
Date:

Signature
NAME OF THE CONTRACTOR
ADDRESS WITH PHONE NO

निबंधन और शर्तें Terms & Conditions:-

1. इस संस्थान के प्रभारी अधिकारी, अनुरक्षण प्रभाग के पूर्ण प्रसन्नता तथा विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन किए जाने चाहिए और प्रभारी अधिकारी, अनुरक्षण प्रभाग का कार्य पर निर्णय अंतिम होगा और किसी अवस्था में किसी प्रकार का दावा का स्वीकार नहीं किया जाएगा। The work should be executed strictly as per the specification/plan to the best satisfaction of the OIC, Maintenance Section of this institute and decision of the OIC, Maintenance section on the work is final and no claims on any nature shall be entertained at any stages
2. कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का अनुमोदन उपयोग के पहले ही प्राप्त किया जाना है इस संबंध में कोई विचलन सामग्रियों का तिरस्कार/ उसका कोई नियत कारण के बिना कार्य निष्पादन अनुक्रम बन्धन है। All materials to be used for the work should be got approved before use. Any deviation in this regard entails rejection of material/work executed without assigning any reason thereof.
3. सूची में उल्लिखित दर प्रति एकक स्पष्ट रूप से शब्दों में और अंको में उद्धृत की जानी चाहिए। The rates per unit as mentioned in the schedule should be quoted clearly, in figure and words.
4. 2% बयाना जमा के साथ और समय पर प्राप्त की गई दर ही स्वीकार की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। इ एम डी/ नियत राशि प्रत्येक लिफाफे में कार्य के लिए रूपए का बयाना जमा (इ एम डी) जैसे उपरिलेखित कर संविदा के साथ प्रत्येक रूप से संलग्न करें The quotation received in the schedule and along with 2% EMD will be accepted and considered. **The EMD /fixed amount should be remitted by DD in a separate envelop super scribed as " EMD for Rs.for the work" and the same should be attached along with the Tender.**
5. प्रभारी अधिकारी, अनुरक्षण प्रभाग द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण/ मापन किया जाएगा। उसका निर्णय इस संबंध में निदेशक की सहमति के साथ अंतिम माना जाएगा। बिना कारण बताये निविदा का पूर्ण रूप से या अंशिक रूप से तिरस्कार करने का अधिकार इस संस्थान के निदेशक पर आरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम है। The work will be supervised or measured in terms of standard measuring side by an officer authorized by the OIC/Maintenance section The Director reserves the rights to reject entire tender or part thereof without assigning any reason thereof and his decision in the regard is final
6. संस्थान के प्राक्कलन अधिकारी द्वारा कार्य की जाँच एवं मापन किया जाएगा। उसका निर्णय इस संबंध में निदेशक की सहमति के साथ अंतिम माना जाएगा। The work will be checked and measured by the estimating authority of the institute and his decision with concurrence of Director in this regard will be final
7. संविदा सूची में उल्लिखित कार्य आदेश के दिनांक से अंदर ही कार्य पूरा करना होगा। नियत समय के अंदर या बढ़ाए गए समय के अंदर ही काम पूरा न हो पाए तो कार्य की कुल मूल्य की 0.25 प्रतिशत से अधिकतम के अधीन 2.5% तक प्रति महीने की दर में दंड अधिरोपित किया जाएगा। The work has to be completed from the date of the work order as mentioned in the tender notice. Penalty clause to be imposed @ 0.25% per month subject to a maximum of 2.5% of the total cost of works if work not completed within the schedule time or mutually extended time.
8. काम संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। नियम-विनियम के अधीन लागू दर में आयकर/कार्य दर बिल से काटौती की जाएगी। कोई अंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा। Payment will be made only after satisfactory completion of the whole work. Income tax/work tax at the applicable rate under rules and regulation will be deducted from the bill. No part payment.
9. 20,000/- रूपए से अधिक भुगतान के लिए 2% की दर में आयकर बिल से काटौती की जाएगी। Income Tax at @2% for the payment exceeding to Rs.20,000/- will be deducted from the bill.
10. केरल सरकार के बिक्री कर 4 % की दर से संविदा रकम काटी जाएगी अगर ठेकेदार केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1963 के अधीन पंजीकृत हो/अपंजीकृत ठेकेदार के लिए संविदा रकम से 10% की दर से चुकाया जाएगा। KGST @4% of the contract amount shall be deducted from the Contractor who has taken Registration under Kerala General Sales Tax Act 1963 and for the unregistered contractors the rate will be 10% of the contract amount.
11. नब्बे दिन की अवधि तक दर स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। अगर कोई ठेकेदार उद्धृत अवधि के पहले दर वापस करें या दर की शर्तें एवं निबंधनों में कोई परिवर्तन करें जो विभाग के लिए स्वीकार्य नहीं है तो निदेशक को किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना पूर्ण रूप से उपर्युक्त बयाना जब्त करने का स्वातंत्र्य है। The quotation should remain open for acceptance for a period of 90 days. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the tenders which are not acceptable to the department, then the Director shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely.
12. निविदाएँ भारतीय स्टेट बैंक, कासरगोड में देय/- रूपए का बयाना जमा का डिमांड ड्राफ्ट जो भा कृ अनु प एकक, के रो फ अ सं, कुडलु (पोस्ट) कासरगोड के नाम पर आहरित हो, कार्य प्रारंभ के पहले प्रेषण किया जाना चाहिए। निदेशक के अनुमोदन के साथ यदि पानी/विद्युत का उपयोग किया गया है तो खर्च अंतिम बिल से वसूल किया जाएगा। The EMD of Rs.should be remitted by DD in favour of ICAR Unit, CPCRI Kasaragod before commencement of work. Charges of electricity/water if so availed with the approval of the Director will be recovered from the Final bill.

13. कार्य की शुरुआत के पहले ठेकेदार जिन्होंने निम्नतम दर उद्धृत की है दर रकम का 10%(अग्रदाय राशि सहित) निष्पादन सुरक्षा के जैसे प्रेषित किया जाना चाहिए और यह राशि कार्य पूरा करने के दिनांक से दोष सुधारने की दायित्व अवधि के छह महीने के बाद विमोचित की जाएगी Before starting the work, the lowest tenderer should remit 10% of the tendered amount (including EMD) as Performance Security which will be released after completion of defects liability period of Six months from the date of satisfactory completion of work

14. मौखिक रूप से कोई निर्देश दिया गया तो वह अतिरिक्त खर्च के बिना उचित रूप से कार्य निष्पादन के लिए दिया गया निर्देश समझा जाएगा । Any instruction given verbally shall be deemed as instructions for the proper execution of the work not involving extra charge.

15. संस्थान द्वारा काम से संबंधित कोई औज़ार या अन्य सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएँगी और कार्य निष्पादन के समय कोई नष्ट, घायल , दुर्घटना आ जाए तो उनके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे । No implements or other facilities, relating to the work will be provided by the Institute and also holds no responsibility on the loss, injury, accident etc, caused during the execution of the work.

16. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/ मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विज़स के विनिर्देश के अनुसार काम किया जाना चाहिए । सभी आर सी सी काम के लिए ठेकेदार मशीनी आवेपक (मेकानिकल वैब्रेटर) और कान्क्रीट मिश्रण यंत्र लाने चाहिए । All The works should be carried out as per CPWD/MES specifications. For all the RCC works the contractor should bring the site mechanical vibrator and concrete mixer.

17. संविदा में दिए गए विभिन्न मदों के लिए उल्लिखित परिमाण व्यतियान के अधीन कम या अधिक होगा । Quantities mentioned for the various items in the tender are subject to variation either plus or minus. Tenders are called basically to fix competitive rates.

18. निर्धारित समय के अंदर कोई उचित कारण के लिए काम अधूरा किया जाए या अंशिक रूप से , रद्द करने की योग्य है और किसी भी परिस्थिति के अधीन ऐसे काम के लिए कोई दावा का प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा इसके लिए किया गया जमा जब्त किया जाएगा । Non-completion of the work or part thereof for any valid reasons within the period prescribed is liable for cancellation and no claims for such works will be entertained under any circumstances and deposits made thereof will be forfeited.

19. डिस्टंबर/एक्रिलिक इमलशन/चूर्ण वाश रंग के पहले लेपन में बुरुश मार ऊपर से नीचे की ओर और दूसरा मार ऊपर की ओर और उसी प्रकार अगला मार दाएँ से बायें की ओर बायें से दाएँ की ओर द्वितीय आवरण उसी प्रकार ही पहला आवरण सूख जाने के बाद पुनरावृत्त किया जाएगा । One coat of paint/Distemper/Acrylic emulsion/lime wash etc. shall consists of a stroke of brush from the top downwards another stroke of brush upward and similarly another stroke from right to left and left to right. The second coat shall be repeated in the same manner after the first coat has dried up.

20. स्थान अभियंता/पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बाद ही रंगलेपन का द्वितीय आवरण का प्रयोग किया जाएगा । और पाँच घंटे के बाद लेपन किया जाएगा । The second coat shall be applied only after the approval of the site Engineer/Supervisor and shall be applied after a gap of five hours.

21. स्थान अभियंता/पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बाद ही रंगलेपन का द्वितीय आवरण का प्रयोग किया जाएगा । The second coat shall be applied only after the approval of the site Engineer/Supervisor

22. ठेकेदार अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के नियंत्रण के लिए और कैंपस के अंदर अनुशासन बनाया जा रखने के लिए, अपने आप या एक व्यक्ति को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे The contractor shall himself or appoint one person as site supervisor/to control the labourers working under him and shall maintain discipline inside the campus

23. अलमारी , पुस्तकालय किताब और अन्य फर्नीचर धूल से आवरण करने के लिए ठेकेदार को अपने साथ आवश्यक पॉलिथीन शीट/टारपॉलिन लाना चाहिए । The contractor shall bring along with him, necessary polythene sheets/tarpaulin to cover the cupboards, library books and other furniture from dust.

24. कार्यालय काम में कम रुकावट के साथ जहाँ तक साध्य हो कमरे का पूरा धूल, रंग, दागा उसी दिन साफ करना चाहिए । As far as possible the rooms should be cleaned of all dust paint stains, the same day with minimum obstruction of the office work.

25. ठेकेदार या उसके श्रमिक कार्यालय के शौचालयों का उपयोग नहीं करना चाहिए और कार्यालय से पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । The contractors or his workers should not use the office toilets and should not waste the water from the office building.

26. ठेकेदार अपने औज़ार जैसे बाल्टी, ड्रम, बुरुश , कचड़ा कपड़ा, सीढ़ी ,स्टूल आदि लाना चाहिए और बुरुश रोज़ साफ करना चाहिए और अच्छे गुण के बुरुश का ही उपयोग किया जाना चाहिए । The contractor shall/ should bring his implements like bucket, drums , brushes , waste cloth, ladder stool etc. and shall clean the brushes daily. Only good quality brushes should be used.

27. बुरुश साफ करने के लिए टरपेंटाइन /विरलक प्रदान नहीं किया जाएगा । अवमिश्रण के लिए शुपाशीत विरलक का प्रयोग करें No turpentine/thinner will be provided for cleaning the brushes. Only recommended thinner should be used for diluting.

28. संस्थान द्वारा आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी । ठेकेदार रहने के लिए और अपने औज़ार /उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए The institute shall not provide any accommodation. The contractor shall make his own arrangements for stay and the custody of his implements/tools

29. कोई त्रुटिपूर्ण कर्म -कौशल पाया जाए तो उसके ही खर्च में परिशोधित किया जाना चाहिए जिसमें उपेक्षाआदि के कारण बिगड़े सामग्री/ कचड़ा रंग सम्मिलित हो Any defective workmanship found shall be rectified at his cost which may include the materials spoilt/wasted paints due to negligence etc.

30. निदेशक या स्थल पर उसके प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति हो, कार्य से पदच्युत करेंगे जो निदेशक के राय में सक्षम नहीं है या कदाचार का हो । ऐसे व्यक्ति को निदेशक की लिखित अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियुक्त नहीं किए जाएँगे। कोई त्रुटिपूर्ण कर्म कौशल उसके खर्च पर परिशोधित किया जाना है । छुट्टी के दिनों में कार्य चालू करने के

लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिए। The contractor shall, on written request of the Director or his representative on the site immediately dismiss from the work any person employed by him thereon, who may in the opinion of the Director be incompetent or mis-conduct himself and such person shall not again be employed on the works without the written permission of the Director. Any defective workmanship found shall be rectified at his cost. Prior permission should be obtained for working on closed holidays.

31 कार्य निष्पादन की अवधि पर अगर कोई क्षति/घायल हुआ है तो संस्थान जिम्मेदार नहीं हो जाएगा। The Institute will not be responsible for any damage/injury caused or occurred during the execution of work.

32 यदि चुने गए ठेकेदार अपने कार्य को संतोषजनक ढंग में निष्पादन करने में चूक हो जाते हैं तो निष्पादन सुरक्षा नियमानुसार जब्त की जाएगी। In case the selected contractor fails to execute the work satisfactorily, the performance security is liable to be forfeited.

33. काम पूरा हो जाने के बाद ठेकेदार भवन के अंदर, बाहर पूर्ण रूप से साफ करेगा, इसमें फर्श, दरवाजे खिड़कियाँ, शीशे, रंग के दाग, बूँदें आदि की सफाई शामिल है, जिससे सारे भवन कार्य के बाद सौंफे जाने पर साफ सुथरा नज़र आए। On completion, the contractor shall clean the entire building from within and outside in all respects, including cleaning floors, doors, windows, glasses, removing paints stains and drops etc. and generally seeing that the entire building has a clean and neat appearance at the time of handing over.

34. कोई अंशिक भुगतान अभिस्वीकृत है। No part payment is admissible

35. ठेकेदार द्वारा संविदा में कोई सुधार/उपरिलेखन करे तो संविदा रद्द किया जाएगा। संविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, के रो फ अ सं को है। Tender with any corrections./overwriting by the tenderer is liable to be cancelled. The power to cancel the tender vests with the Director, CPCRI.

36. इच्छुक निविदाकार द्वारा स्थान का संदर्शन किया जाना चाहिए। और स्थानीय जगह परिस्थिति और कार्य की प्रकृति, आवश्यकता, परिवहन स्थिति की सुविधाएँ, प्रभावी श्रम एवं सामग्रियाँ, सामग्रियों की उपलब्धि एवं भंडारण, रद्दी सामग्रियों को दूर करने की सुविधा आदि से परिचित होना चाहिए। विनिर्दिष्ट कार्य के निपटान के लिए निविदाकार अपने निविदा में सवार, भाडा तथा अन्य खर्च और परिवहन आदि के लिए अगर पुलिस प्रतिबंध सहित अन्य कोई विशेष मुश्किल है तो, खर्च के लिए प्रावधान देना चाहिए। कार्य के प्रारंभ के पहले स्थान परिस्थिति जो पहले ही विद्यमान है, के कारण कोई भुक्त हानियाँ हैं या परिषद के राय में कार्य प्रारंभ के पहले ही विद्यमान युक्तियुक्त अनुमानित माना जाए तो सफल निविदाकार कोई प्रतिपूर्ति के दावे के लिए हकदार नहीं है। Intending tenderer shall visit the site and make himself thoroughly acquainted with the local site condition, nature and requirements of the works, facilities of transport condition, effective labour and materials, access and storage for materials and removal of rubbish. The tenderer shall provide in their tender for cost of carriage, freight and other charges as also for any special difficulties and including police restriction for transport etc. for proper execution of work as specified. The successful tenderer will not be entitled to any claim of compensation for difficulties faced or losses incurred on account of any site condition which existed before the commencement of work or which in the opinion of the council, might be deemed to have reasonably been inferred to be so existing before commencement of work.

37. छोटा छोटा कार्य संतोषजनक रूप से पूरा करने के दिनांक से अगर कोई त्रुटि उसको पायी गयी है तो ठेकेदार को त्रुटियाँ ठीक करने के लिए प्रदान किए गए 6 महीने की अवधि में सभी त्रुटियाँ पूरा करनी हैं, उसके बाद ही निष्पादन सुरक्षा निर्मुक्त किया जाएगा। The Performance Security will be released only after the completion of the defects liability period of 6 months provided that the contractor has attended to and rectified all the defects, if any, shown to him from the date of satisfactory completion of the petty work.

38. कार्य आदेश जारी करने के 10 दिन के अंदर ही संविदाकार निष्पादन क्वारंटी चुका देगे। निष्पादन सुरक्षा राशि का 0.1% प्रति दिन के दर में देरी शुल्क के साथ ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर इस अवधि 10 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है।

The contractor shall debit the performance Security within 10 days from the issue of work order. This period can be further extended at the written request of the contractor for the period of 10 days with late fee at the rate of 0.1% per day of performance security amount.

39. कार्य के प्रत्येक मद के लिए दर उद्धृत करना है। चुन लेते समय अगर कोई कोष्ठ खाली छोड़ा जाए तो वह '0', माना जाएगा। इसलिए अगर कोई कोष्ठ खाली छोड़ा जाए संविदाकार द्वारा कोई दर उद्धृत नहीं किया है ऐसा मद '0' (शून्य) माना जाएगा और ऐसा कार्य नि: शुल्क किया जाएगा

Contractors must quote rate for each item of work. while selecting if any of the cells is left blank the same shall be treated as '0'. There fore if any cell is left blank and no rate is quoted by the contractor the rate of such items shall be treated as '0'(zero) and the item of work shall be done free of cost.

मैं शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कार्य करने और कार्य के निष्पादन के लिए सहमत हूँ।

I agree to undertake and execute the works as per the terms and conditions

.....रुपए का डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक का अग्रदाय राशि अदा किया गया।

EMD remitted Rs.....dated.....DDNo.....

ठेकेदार का हस्ताक्षर एवं पता दूरभाष सं
Signature of the Contractor and address, phone No.